

Date: 11th November 2023 Ref No: SEC/SE/ 2023-24/ 06

The Manager-Listing

The Manager - Listing

The National Stock Exchange of India Limited

Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers,

"Exchange Plaza", Bandra - Kurla Complex, Bandra (EAST),

Dalal Street,

BSE Limited

Mumbai - 400051

Mumbai -400001

NSE SYMBOL: SENCO

BSE SCRIP CODE: 543936

Sub: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies of the following Daily Newspapers dated 11th November, 2023 in which the Unaudited Financial Results of the Company for the Second quarter ended and half year ended September ,2023, have been published.

The aforesaid results have been approved by the Board of Directors at their Meeting held on 9th November, 2023:

- 1. Business Standard (English) (All India Circulation)
- 2. Aaj Kaal (Bengali Daily)
- 3. Jansatta (Hindi Daily)

This is for your information and record.

Yours sincerely,

For SENCO GOLD LIMITED

SURENDR Digitally signed by SURENDRA GUPTA A GUPTA Date: 2023.11.11 16:36:36 +05'30'

Surendra Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A20666

Senco Gold Limited

CIN No.: U36911WB1994PLC064637

Registered & Corporate Office: "Diamond Prestige", 41A, A.J.C. Bose Road, 10th Floor, Kolkata-700 017, Phone: 033 4021 5000 / 5004, Fax No.: 033-4021 5025

Email: contactus@sencogold.co.in Website: www.sencogoldanddiamonds.com

30.06.2023 38.69.2122 38.89.2623 10.99.2023 31.03,2023 Total Income Horn Operations (Not) 11414.50 29145,01 49700 89 Profit Before Tax 145.76 154 N 490.58 2196.98 1962 86 900.0 Net Profit After Tax 170.40 1054.64 834.67 314.20 B11:34 1804.88

Place: Montail

Data: November 05, 2625

1. The above is an extract of the detailed format of Unavailed Standardon and Consolidated Financial Results for the Quarter Half your ended Suptember 30, 2022 New with the Block Exchange (s) order Requisitor 33 of the SESI (Lating Coloptions and Dischause Requirements) Regulation, 2015. The Not harvast of the Unaudied Standards and mostigated Financial Results are available on Stock Exchange(s) website (were-meindia.com and were-besteld-scom) and on Company's website

For Orican Enterprises Limited Addresh Somani **Managing Director** (DIN: 00102506)

TRUST TO COMPLICATE PROBLEM Direct service coverage rate Nort Applicable Inhanast service coverings ratio hase. Farming for Computation of Biston are as follows: 8 Feet worth his term consultation as defined in Section 2(67) of the Companies Act, 2013.
It bets equity finish direct decreases as equity is require. Figures pertaining to the previous period from beam rearrange overgrouped, wherever considered recessary, so more their purposage with

Place : Killonis Date : November 9, 2023 Sel Whatructure Finance Limited of Office Valuationna, ISC, Tiguia Host (South), Kalisca - 700 046 Tel: +81.33 23850512-15, (1307734 Fee: +81.312385-8501/7542

(Acting up a Chairman of the Implementation & Manifolding Committee)

For live Inhamiliante Finance Ltd.

EATHERSHIPHARMA

20 KOLKATA | SATURDAY, 11 NOVEMBER 2023 Business Standard

Sikhs in their infinite variety

Margreet J'Singh's book is a must-read for anyone who is keen to understand the history and contemporary realities of Silds in India. While the book is rooted in scholarly research, it is clear that the author wants to be in conveniation with an audience that goes beyond other scholars writing on Sikh identity. She writes in a poised, reflective manner, allowing readers to take in information at a gentle pace.

Singhhas a PhD in English Literature from the University of Mumbai, and has taught most recently at the Department of English, Mata Sundri College for Women, University of Delhi. This volume builds on her academic training but it is also inter-disciplinary in nature. Though she admits that making a leap from literature, which is her "core field", was daunting, the bookhas benefited from her sbility to draw on other bodies of knowledge-history, sociology, psychology, and popular culture - to enrich the reader's understanding.

She succeeds in dismantling the myth of a timeless likh identity by showing how it has evolved across time and space, not only under the 10 Silds gurus but also in relation to developments such as the Romagata Marti incident of 1914, the partition of the Indian subcontinent in 1947 the Green Resolution in Punjab in

the 1960s, Operation Blue Star and the assassination of Prime Minister Indira Gandhi in 1984. attacks on the World Trade Centre in New York City in 2001. and the attack on the Oak Creek Gunfwara in Wisconsin in 2012.

Singh celebrates the entrepresencial spirit of fill he who rebuilt their lives after becoming refugees in 1947 and, at the sume time, points out how their straggle for survival shaped other people's ideas about them. She writes, "In a race to grab scarce resources, resorting to heckling and shouldering their way through a crowd composed of equally desperate people, fillds as a community began to be seen as aggressive." According to her, the loss of a safety net created an

attitudinal shift in the convasanity -- a growing tendency to acquire and board. What makes this book particularly impecsaive is the author's honest engagement with her own positionality.

objectivity while working on areas that have had a bearing on my own life? Or would my training as a researcher belp me. maintain a distance and allow an overview?" She is a Silth woman but her objective is not to provide a glowing

portrait of her own community. She is able.

The Sikh Next Door

THE SIKH NEXT DOOR: AN IDENTITY IN TRANSITION

Author: Hanpreet J Singh

Publisher: Bloomsbury

Price: ₹699 Pages: 244

to address sterestypes that others have about Sikhs, as also controversial issues such as the Khalistan movement as well as the slowed sex ratio among Sikhs in India dueta female foeticide and downy. This is possible because of the selfawareness that she maintains and lays bare before maders.

Singh corrects the misperception that caste does not play a role in the social life of Sikhs. She notes, "Despite lilidi religious prohibiting/caste discrimination, gurdwuras have been the site of caste-based persecution." According to her, Dalit Sikhs are

denied positions in gurdwara managements, which are dominated by

Juts, "Many among them are increasingly identifying themselves with Sont Ravidas, one of the many lowercaste saints whose writings are included in the Guru Granth Sahib," sheadds. They chose to call themselves Ravidassias and have constructed separate Ravidusia gurdwaras, refusing to be on the margins any longer.

This book examines in

passing the work of singers like Ginni Mahi, Pamma Sunar, Jaewinder Rayyu and Rajni Thakkarwal, who emphasise the deeply embedded caste based structures in Silch society. Singhwrites, "There are a plethora of Punjabi songs, celebrating the Chamar identity, clearly reminiscent of Jats celebrating the Jat identity." Their lytics speak of a "readiness to fight back discrimination" and the music videos feature "a blatant display of new prosperity through expensive cars, houses and weapons". The author says, "Maxhabi Silch women too are constructed as warriors ready to

She also writes extensively about the divide between Jats engaged in agriculture and Khatris involved in business and trade. According to ber, when the Green Revolution brought prosperity to sections of Jatsociety, Silch culture began to be identified with Jat.

culture-"concepts of pind, kher, makki di roti, surrientala sang, bhangra. giddha, phalkaris and Potiala turbane" - as a result of which the mercantile commanity began to be viewed as outsiders.

This book shaves how silly it into assume that a minority community is homogenous, Sülbs in Bhar, West Bengal. Assam, Megholays, Andhra Pradesh. Mahanshtra, Karnataka and Telangara have histories and practices that are somewhat different from Sildwin Punjaband Delhi, They follow the same faith but they do not necessarily

speak the same language "The Assumese Silds have often been belittled because they cannot speak or read Panjabi and are bence also referred to as sporious Sildts or luchcheSilds," says

Singh. To-counter this offensive claim, the Assamese Silchs arguse that "they follow Silkhi more sincerely than the Punjabi Silds, who are more concerned with ordentation than spiritual understanding".


Any book about 5ikhs cannot affeed to mass-out on the significant and visible Silch diaspora. Singh touches briefly on the histories of Nikhe living in Myanmar, East Africa, Fiji, West Indies, Canada, Australia, the United States, the United Kingdom, Europe and Singapore. Oddby she does not write about Sikhs living in Pakistan and Alighanistan, One hopes that future editions of the book will fill this particular gap and also expand the escellent analysis of changing gender norms to address concerns nased by LGRTQ+58ldw, SeeingSuldsdeepSingb's documentary film Sab Rub De Bawle (2018) might be a good start. It features practising LGBTQ+ Nikhs from Delhi, Kangur, Punjah, Kelikata and Haryana.

Govt relaxes rules for some small savings schemes

those of the comerc period.

(CN) L7629WILLHSPLD2HILL

Website www.uni.com, firmal for transplans, twestor relations@com.com



achemes. including Public 1.Tar Provident Fund (PPF) and Senior Citizen's Sayings ticheme

For the Senior Citizen's Savings Scheme, the new norms provide three months to open an account against


one month's time at present. As per the gazette notification dated November 9, an individual can open an account under the Senior Citizen's Savings Scheme within three mentles from the date of receipt of the setirement benefits and proof of the date of disbursal of such retirement benefits.

The deposit in such an account will earn interest at the rate applicable to the scheme on the date of maturity or the date of extended maturity, the notification said. In the case of the Public

Provident Fund, the notification has made some changes with regard to the premature closure of accounts.

This scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2023, the notification said.

According to the notification, some changes have been made for premature withdrawal under National Savings Deposit scheme. If a deposit In a five-year account is withdrawn prematurely after four years from the date of opening of the account, interest would be payable at the rate applicable to Post Office Savings Account, it said, PB



11.11.2023

is there a better way to say 'Thank YOU'

Than to serve YOU better?

Regd: Office: 57, V.E. Road, Thoothskusi, Taminada - 629 002.

For further details, contact your nearest branch www.bmb.in 165-50s : 186-8425-8426



SENCO GOLD LIMITED

REGISTERED OFFICE: "DIAMOND PRESTIGE", 10TH FLOOR, 41A, AJC BOSE ROAD, UNIT NO 1001, KOLKATA-7000LT

CIN: L36911WB1994PLC064637

E-mail: #@serscogold.co.in | Website: www.soncogoldanddiamonds.com | (T): +91 33 4021 5000 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30" SEP 2023

	Particulars	Standalone							Constituted						
		Quarter Student	Total Control		Half Year Erroad	HART TRAIN Errorad	25.	Quarter Ended	Total Control		Helf Year Street	Health Seatt	22.		
۰		Milep III	Name (I	Bigdi	Historia	Miles	Heri	MARKET 23	Band	Maple	Miles-III	Mapl	U-March		
		(Assertant	-	Upperfilled Male rose is	Unsetted	Total Control	-	Constitut		Marian Marian	Disabled	Personal Control	-		
	Total income from operations	11,554.22	13334.00	1201.42	34,912.22	19,525.54	4),872.65	11,575.91	13,348.46	9,201.94	24,724,87	15,304,37	41,85.40		
2	tiet Profit for the period (before tox)	135.76	362.61	132.76	822.35	407.51	3,181.16	339.07	37436	129.34	\$13.43	400.19	1707.0		
t.	test profit for the period (efter tas)	136.15	294.73	31.33	404.88	323,46	1,609.13	119.40	216.68	87.80	296.16	315.09	1,181.79		
	Yotal Comprohensive assame for the period (Comprising Prefit / (Less) for the period (after tax) and (Wher Comprohensive (second (after tax))	397.61	203.35	8.0	296.96	347.75	2,664.60	386.94	275.34	67.06	362.24	310.50	1,5811.34		
	Equity Share Capital	776.63	691.46	883.46**	776.43	691.46**	681.467°	776.63	885.46	681.4674	776.63	\$81.40°	661.A67		
	Reserves or shown in the Audited Tolorica Sheet of the previous year						8,798.80						1,712.71		
7.	Carrings per equity share (EPS) (in it) (* not annualism)								41 3						
	1. Buit	3.02*	4.12"	3.30*	6.81*	4.00*	23.29	2.61*	4.201	1.25*	6.66*	4.83*	22.80		
	2.004rd	2.81*	4.11"	1.32*	6.78*	4.64"	23.25	2.86*	3.99*	1.29*	6.63*	4.51*	22.86		

By Order of the Board of Directors

Senso Gold Limited Managing Director & CEO DIN: 01178803















CIN - L27201DL1074JPLCD07114 First Office 8-5, 3rd Floor, Mein Road, Chartpur, New Dethi (India) - 110096

40,01% 12:10%

49,58%

Extracts of the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023

#forwardingother follow-union () (2) ((i) (i) (ii) (iii) (ii

						(In Fila)	the except EP1
					Helf Yes		
		St-time-23 (Unacidated)	30-Jun-23 (Unassided)	M-Asp-23 (Unavided)	SG-Step-23 (Una udilad)	35-Sup-22 (Unavalent)	31-Mar-23 (Auditod)
1	Total income from operations	20,446.09	31,361.57	35,007.89	51,797.65	59,370.13	134,355.63
2	NetProfit(Loss) before Tax (Bartone Exceptional and Extraordinary Herns)	801.05	957.17	675.21	1,758.23	1,070.51	3,490.22
3	Not Profit/(Loss) before Tax (After Exceptional and Extraordinary floms)	801.05	957,17	575.21	1,758.23	1,070.01	3.496.23
4	Net Profit(Loss) after Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	857,19	745.64	512.72	1,403.04	936.14	2,743.66
5	Total Comprehensive Income (Comprising Profit(Loss) after Tax and other comprehensive income after Tax)	446.61	745.28	560.79	3,391,91	1,040.83	2,091.51
6	Equity Share Capital	5,063.52	4,746.06	912.31	5.063.52	912.31	4,658.23
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	+					20.353.27
	Earning per Share (in f) Saste" Distant"	0.09	0.15 0.15	0.66	0.23 0.23	1.23	1.22

* Basic Karrings per equity share has been reduced during the quarter and half year ended September 30, 2023 due to weighted No of

shares increased from 23,12,04,805 on 31,03,2023 to 48,32,62,721 on 30.09,2023 "Distinct Earnings per equity share calculated as per Ind- AS 33 during the quarter and half year ended September 30, 2023.

considering additionally 1.00.95.707 share warrants to be converted into equity shares.

expressed an unqualified report on the above results.

 These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Indi-AS) as prescribed. under section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and

The above oprincitizated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Controlles and approved by the Board of Devictors at their meeting held on November 19, 2023. Limited review under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the stebutory auditors of the company. The moliture have

Standalone Results as on September 30, 2023 are as under Net Sales / Income From Operations 15.562.78 21.928.50 25.002.78 37.491.28 42.822.89 100.988.57 136.67 399.11 2 Other Income 105.18 95.52 241.85 Profit before Tax 533.88 779.23 1,313.11 297.03 2,248,66 233.46 971.04 570.86 206.39 4 Profit after Tax 400.20 166.02 1.645.44 400.16 573.34 170.18 973.49 209.95 1,652.86

Total Comprehensive Income ofter Tax The Board of Director at their meeting held on February 14, 2022 has considered and approved a draft scheme of amalgamation ('echeme') under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, of Lepaisthi Tubes Private Limited (Company's Wholly Owned Subsidiary) with the company. The scheme is subject to receipt of approvals from the Horitrie National Company Law Tribunal. Delhi bench ("NCLT") and approval of other regulatory or statutory authorities as may be req ired. The scheme has already been approved by the shareholders and creditors in their respective meetings held on November 15, 2022.

During the quarter, the Group has made following allotment of shares:

1. The company has allotted 1.87.50.000 Equity Shares pursuant to conversion of warrants on July 06, 2023 along with the bonus shares reserved for the warrant holders in the ratio of 4.1

The company has attotted 25,25,000 Equity Shares pursuant to conversion of warrants on August 01, 2023 along with the bonus shares reserved for the warrant holders in the ratio of 4.1

3. The company has allotted 1,54,71,200 Equity Shares pursuant to conversion of warrants on August 17, 2023 along with the

bonus shares reserved for the warrant holders in the ratio of 4.1 6 Figures for the previous periods / year have been regrouped/recast wherever necessary, to confirm to the current period's

The Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 are available on the website of the Company (were ramasteer com) and on Stock Exchanges website (www.bsethdia.com and www.nsethdia.com).

Date: November 10, 2023 For Rama Steel Tubes Limited Naresh I BUILD Marti



বিদ্যুৎকে জেরা করতে

CERTIFIED

GENUINE

DIAMONDS

HUID

HALLMARKED

JEWELLERY

ফলতায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওডেজ্ঞা বিনিময় করছেন সাংসদ অভিফেক ব্যানার্জি। ছবি: আক্রকাল

ধমকে-চমকে দমানো যাবে না

চেটা করা হয়েছিল। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই আগুন निक्टिएक् । निर्मिश्रम व्यामात निकटक नामिश्रक (शदक अक) भतिग्रप्त भूई कर्माश्रफ ब्याइकित श्रीन-नाइ बनशकिनिश्ता।

সংখ্যালযু প্রার্থীকে নিয়ে এসে দক্ষ করিয়েছিল। মানুষ তা এই লোকসভার সাবধাছিয়াতে দাসার আগুন লাগানোর প্রজোখ্যান করেছে। এবারও মনুষ প্রজাখ্যান করবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতারবিধায়ক শছর নম্বর, জেলা

পানীয় জলের নতুন সংযোগের সঙ্গে ওয়াটার মিটার লাগাতে হবে: মেয়র

আজকালের প্রতিকোন

কলকারাম এবার খেকে পানীম জলের নতুন সংযোগের সঙ্গে ওয়টার নিটার লাখাতে হবে। জলের অলচন কথতে এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা প্রসভা। ওক্রবার একথা জানান কলকাতার মেনর ফিরহান হাকিম।

বছর করেক আগে কলকার য়া পানীয় জলের অপচয় রূখতে পরীকামূলকভাবে क्षाणित निर्णत बनादनात काम कर्म করে পুরসভা। উত্তর কলকাভার ৬টা ওয়ার্ডে ওয়াটল নিটল বদায় পুরসভা। যাতে পুরসভার সাফল্য ক্রাখে পড়ার मरका। अस्मि 'फेंक पू द्रमात' अनुशादन কলকাতা পুরসভার ওয়টোর মিটার शकरमत गायना शंभाज (भरात कानान) কাশীপুর এলাকায় উৎপদিত পানীয়

(शरक ७ धकना ७ एउम्बा कनिरस्रहरू । धनास मिक्टब्स मुकूम शृत अलाकाम क्वांग्रेस मिगत नाभद्रभात काक छल्ट्य। सन्तर्भ कन चत्ररहत মাধ**িছ্ সর্বোচ্চ দী**মা১৫০ লিটায়। যেটা মাখাপিত্ পৌঁছে গেছিল ৩০০ লিয়ারে। কলবাতায় ৫১৫ মিলিয়ন গ্যালন ফল প্রতিদিন উৎপাদন করা হয়। গত এক বছরের তথ্য অনুধারী, উত্তর কলকাতম ৬ ওয়ার্ডে নিটার লক্ষিয়ে দেই খরচ প্রায় चार्यक करत रमला अरह। ७ क्सार्फन ১৮ शाकात ७००मा क्यांगत निर्मत लाखारना **१८स८६। निरात लिप्ति कल पतरह मानाना** কিছুটা রাশটানা প্রছে। আর পানীয় জল উৎপাননে বিপুল বায় ভার বহন করতে হয় কলকাতা পুরসভাকে। অপচন বন্ধ হলে উৎপাদন খরচেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ

क्रम्बत चलाम वस्र कर्ना मस्रव इटसएस। जाना गांदन। या जिला शुक्रमधांत जना আজ এশিয়ান ভেতেলপদেউ ব্যাছের পক্ষ উন্নয়নমূলক কান্ধ করা যাবে। উত্তরকে মডেল করে দক্ষিণের ওয়ার্ডে ও ওয়ারার মিটার লাগানের কাজ ওক হয়েছে। পাপপাশি এলাকাবানীকে সংগ্রেমণ্ড করা হবে। পাণাপশি নাথবিক সচেতনভাও **छाना**दमा द्वत। ज्ञानीस काञ्चलनादला উলোগে এলাকায় সচেতনতা চালানো হবে। তার আগে পনিয় জল উৎপাদন ও সরবরাহ দশ্বরের কর্মীরা ঘূরে ঘূরে রাজার কলগুলো খোলারয়েছে কিনা তার ওপর नमन तापटवन । ताखात है। कटलाहै य कवात ভেতে নিলে, আর দেখান জ্বান্ডপোট লাপানো হবে না। বন্ধ বন্ধ আবাসন, মুদ্রটে বাড়িখনেলাতে লাম্প উপচে জল भएफ घाएक किना त्मिप्टक नक्क्त निर्देश সমীকা চালাবে পুরসভা। কালীপুঞার পর থেকেই কাছ ওক হবে।

ফেব্রুয়ারি এজি–র পদত্যাগ व्याक्रकाटमात शक्तिरक्तमः भागवाभा कत्रामान ताटकात व्याक्रटवाटकरे एकनादतम (नीटा सनाम

থেকে

4380 निशानमधा कटळ निष्मा সন্দিলনী সফল হওয়ায় ত্ৰণমূল খুশি। क्ल घटन कटन, विक्रमा अधिनरीत নাধ্যমে অনেকটাই জনসহযোগ করা

(श्रष्ट्र । क्रिरंगधन, ब्लानुशानि केंश्रारना মাস। তাই ফেব্ৰুবানি থেকেই লোকসভা

निर्वाष्ट्रत्ना श्रष्ठात क्षक करत पिरङ

চাইছে দল। নেতারা আলোচনাও

তরু করেছেন। লোকসভার আসন

श्रदत- श्रदत काम कता श्रद्ध i à तारामहत

নির্বাচনের পর ইন্ডিয়া জ্বোট নিয়েও

कथा क्षक इरन वरन भूरतन थनत।

২০১৯ - ध्वा निर्वेष्ठरन कृषमूल

পেয়েছিল ২২টি আসন। বিজেপি

১৮ ও কংগ্রেস ২টি। প্রচারের ওকারে

विटक्षणित विकृष्ध मानुष्राक वला इरव।

रनडारमत वरम रमध्या दराइ, ১००

দিনের কাঞ্জের ববেনা টাকা খেডাবে

কেন্দ্র আটকে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে

প্রচার করতে হবে। এও বলতে হবে,

সারা বছর বিজেপি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি না করে গুধুমার কুৎসা করে যাতেছ। অপপ্রচার করছে। এর বিরুদ্ধে

জবাব দিতে হবে। রাজনৈতিক ভাবে বিজেপির মোকাবিলা করতে হবে। পত বারের নির্বাচনে বিজেপির পাঞ্জয়া

३५/ि व्यामदनत भद्ध व्यक्त ३२−३ ०८ि আসন ছিনিয়ে আনতে হবে। প্রার্থী নিয়ে

अथम**७** আ**ला**क्या दश्चति । एट**ल**तं अव

भारभएक क्षेत्रारत सामरत बना स्ट्रसाध ।

निरक्षणि উत्तरादन नाथा पिराक्ष । पाना

করতে চাইছে।শান্ত বাংলাকে অশান্ত

कतरत हाहिए। य-भरवत विक्रस्त त्याका

জবাব দিতে হবে। দল উদ্ধরবঙ্গের

ওপর আরও জনার দিতে চাইছে। দলীয়া

भूट तत्र चंचत्र, भार्छ त भटश्व है निया छटनत

निव्वश्वि काति इदम यदन। ইভিমা कार्रे

আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলেচনার

আপেই বিজেপি নিৰ্বাচন ওক করে

प्टिंग्ड हों। दुशमुदलत अक निवात

অভিযোগ, বিজেপির রাজ্য নেতারা

কেন্দ্রের নেডাদের বলেছেন, বাংলায়

কোনও জোট হচ্ছে না। সিপিএম-

करदर्शन अक नदम नफ्टफ्। पुनमून

লডছে আলালা ভাবে।

ज्यक्रमत यक रनठा वरमन.

नीপদ্ধর নদী

মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর হিদাবে দেবশিস রয়কে বহাল করে রাজ। সরিয়েদে ধরা হয় পূর্বতন শাধতপোপাল মুখোপাধায়কে। काना विराहर, अस्निविकारन विरमन (चलक है भर उहांचन उ भारतिस पिरहारफ न तारकत জ্ঞান্ততোকেট ক্ষেনারেল। আগানী ১৮ নতেছন তিনি কলকাত্তম ফিনাকেন। তার আপে ত্তিনি বিদেশ থেকে ই-মেল মারফত রাজ্যপালের বরছে তাঁর পদ জ্ঞাঞ্বপত্র পাঠ মেছেন। केता २८७ भारत । अत चारण किरभातवावूरे अक्रि भारत हिरमत ।

যা নিয়ে পায়ের হয়েছে অভিযোগ। এ ছাড়া, মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রান্টের कारशांत्र वांठ्य तवीलनाध्यत कनक कारता निराक्ष व्यक्तियांत्र जात অধ্যাপককে জাতিবিদ্দেশমূলক মন্তব্য প্রভৃতি নিমে মোট ৯টি এফআইট विनुष् ५ ५ स्वर्वर्वेत विकट्ष । ठाएँ क्रिकाशांवादम्त क्रम् आविनिद्धारम् । इसाहिल डीरक। डिनि शृतिरशत कारह डिन मश्राह मना करा औ এড়িয়ে যান। উল্লেখ্য, ৮ নতেছন বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে দূরের দাবি, সৌমেন্দ্রনাগবাবুর পরিবর্তে পুনরায়।কিপেপ্তা দতকে অ্যাক্তভাকেট ক্লেনারেল



SENCO GOLD LIMITED

REGISTERED OFFICE: "DIAMOND PRESTIGE", 10TH FLOOR, 41A, AJC BOSE ROAD, UNIT NO 1001, KOLKATA-700017

CIN: L36911WB1994PLC064637

OMNICHANNEL

SHOPPING

E-mail: ir@sencogold.co.in | Website: www.sencogoldanddiamonds.com | (T): +91 33 4021 5000 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30TH SEP 2023

		₹ in million, unless otherwise states													
	Particulars								The state of the s						
si.		Quarter Ended 39 Sep-23 Unaudited	Promises Quarter Ended	Corresponding quarter ended in the pressure year	Service of	Half Year Ended 39 Sep 23 Unasided Safer sale S	Vest Ended 35 Mar 23 Audiod	Quarter Ended	Previous Quarter Ended 10-km-23	Corresponding mater models	Half Year Ended 30 Sep 23	Half Year Ended 30 kep-23 Immediad Obtained: 2	Vener Ereflood 35-Mar-23 Audited		
•			50-Am-23	30 Sep-32				35-Sep-23		35 Sep 27					
			(Desided)	Districted				Unaudited	Headled	Description Description II	Unautited				
1	Total income from operations	11,556.22	13,136.00	9,201.42	24,692.22	19,325.51	41,072.65	11,575.91	13,141.46	9,201.04	24,724.37	19,324.37	41,065.4		
2	Net Profit for the period (before tax)	139.74	362.61	122.76	522.35	437.53	2,185.86	139.07	374.56	119.34	\$13.63	430.19	2,161.5		
3	Net profit for the period (after tax)	120.15	284.73	91.33	404.88	321.41	1,609.13	119.48	276.68	87.91	396.16	314.00	1,584.7		
4	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tas) and Other Comprehensive Income (after tax))	107.41	283.35	90.43	310.96	317.75	1,604.63	106.94	275.30	87.00	382,24	310.50	3,580.3		
1	Equity Share Capital	776.63	601.46	691.46**	776.63	691.46**	691.46**	776.63	691.46	691.46**	776.63	681.46**	\$31.46°		
6	Reserves as shown in the Audited Balanca Sheet of the previous year						8,798.90						8,263.7		
7	Earnings per equity share (EPS) (in f) (* not annualised)														
	1.Basic	2.01*	4.12*	132*	6.81*	4.65*	23.29	2.01*	4.00*	1,25*	6.66*	4.53*	22.9		
	2. Diluted	2.01*	4.11*	1.32*	6.78*	4.64*	23.23	2.00*	3.99*	1.25*	6.63*	4.51*	22.8		

The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated properties results from the Stock Exchange under Regulation, 32 of the SESI Extrag Obligations and Disclarater Requirements from the Stock Exchange of Internal solidate (SESI). The first and the Properties is an extract of the Properties and the Company's vehicle.

The standalone unsadded Properties and of Sense Good Lineted Oble Company's vehicle.

The standalone unsadded Properties and of Sense Good Lineted Oble Company's and the consolidated unsadded francis results of Sense Gold Lineted (the Yolding Company') and its substitution unsadded Properties (Sense Good Lineted Oble Company') and its substitution of the first oble Company's and its substitution of the Folder Company's Rest the quarter and so southly provided and Schoolines 2021 And a breaking Company.

These standalone conditions of the Folder Company's and a breaking Company.

These standalone and composited standards Research Control of the Standards Assistance and Schoolines at the supportion meeting had one of the standard advanced by the Assistance and some final formation and some

The chief operating duction maker (CODM) has identified "jowethery facinets" as a single business operating segment per management approach connected in hel AS SSE, "Operating Segment". Poid-up repails share capital reported in the standards and consolidated seaucided Sharcial results includes 0.03% computantly convertible non-consolidate preference charts instead by the Helifor Company. These been operated into organize there during the previous quarter.

During the ignorter, the Company has a food others capital amounting by £25.00 relition in Senso Gold Artisonable Physics Limited, a setably owned subsidiary in trake. The floor of Observation of the Heisting Company at their meeting held on this receiver 2023 have encouraged as interior disclaims of the Heisting Company at their meeting held on this receiver 2023 have encouraged as interior disclaims of the province period have been regrouped; reclassified wherever receivery to confirm to current period's classification.

By Order of the Board of Directors

Suvenkar Sen, haging Director & CEO DIN: 01175803


Place: Rubiata Date: 9 Nov-2023















দি বাকসাড়া কো–অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ ५०, तल. तम. मि. मतनी, नाकमाञ्चा, दाव छा-५३३ ३३०

নীলাম বিজ্ঞপ্তি

এবদার জনসংগ্রহণ জাবনো মুম্ট্রেছে যে, আগামী ২৬পে নতেন্ত ২৬২৩, ববিবার, সেল ৬ মনিবার সেকাইনির প্রবান বার্মানয়ে অনাকরি বংশর বছলীকুত্র কোনার গাইন প্রবাশ নীলামে (প্রয়োজনে নটে) বিজ্ঞান বরা হাইলে নীলামে অংশগ্রহণ কুটিতে ইচ্ছাক ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানের তিননিব অলো সেকাইটির সম্পানক বা প্রেল্টি আনেজার নার স্থাতি খেপছমাণ ববিতে পার্টের পোনকল কাজা না দর্শস্থিয়া বা নীলাম সম্পুর্বজ্ঞানিকভাবে, পূর্ব অথক নীলম চলকালিন সময়ে হুলিও রাখিবর অধিকার সেকাইটি কর্তুশক্ষের বহিন্দ্র বাই সম্পূর্বে গুল প্রত্নীপাণের অথক প্রায়াদর আইনসক্ষর উত্তর্জকারীগণের নিকট হুইতে সেকাইটি কোনকল প্রায়াল প্রায় হুইবে নাঃ

त्त्रज अहमार्के वर - Cal. - अहम अहमार्के वर - Cal. - 1066%, 10725, 10789 10805 10997, 11402 41472, 11563, 11601, 11683 41699, 11792, 12130, 12268, 12275 12301, 12346, 12356, 12357, 12374, 12554, 12577, 12746, 12783, 12863, 12960, 12979, 12983, 13049, 13068, 13080, 13084, 13095, 13145, 13237, 13266, 13267, 13273, 13426, 13430, 13488, 13507, 13531, 13576, 13723, 13732, 13755, 14081, 14137, 14186, 14235, 14264, 14267, 14009, 14328, 14497, 14507, 14560, 14609, 14635, 14678, 14683, 14771, 14867, 14882, 14969, 14974, 15008, 15017, 15031, 15104, 15117, 15224, 15237, 15259, 15431, 15505, 15550, 15693, 15705, 15764, 15787, 15794, 15804, 15824, 19937, 16045, 16046, 16071, 16122, 16196, 16233, 16234, 16255, 16256, 16271, 16301, 16417, 16415, 16567, 16613, 16707, 16700, 16030, 16057, 16939, 17041, 17103, 17122, 17127, 17128, 17145, 17154, 17158, 17189, 17201,17219, 17263, 17317 J 7418,17431, 17532, 17543, 19208 & cora apropri et (wert) GL, NO.

848, 2565, 857, 1035, 1513, 1556, 1557, 1599, 1595, 2228, 2023, 2259, 2371, 2535, 2601, 2683, 2706, 2788, 2917, 2959, 2983, 3119, 3137, 2417, 2951, 2662, 2449, 2797, 2773

त्मन बाकांक्रें नर (निक्न रावमञ्ज) GL, NO. 359

WT-30,59,4948 CEVERRI: 96344 09381

OWNER

कार- विकास सामग्रीकृति घटेन क्रीन मन्त्रान

(国民共産計・14, 選挙・14) dans if the second dans of the second seck দখল বিজ্ঞপ্তি (ছানা সম্পত্তিন জন্ম)

সার্বাল অফিস, সত্র ডিলার্টমেন্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর नदिम चुनिताम लाम लाज, वार्ज प्राप्तन, ट्यम्मिशूर, शिल-५२३४०३, शन्तिमयम। टमम आदिधिः es#294(i/p nh.co.in

लक्षात्र मानमान नाम का चन्द्रशनित पार्विशतिक विद्यारत निकालकालाची मिनिविति वेजिदनी (কালেপ্রেণ্) বলপ,২০০২ কা বল ও সং গালীর সিবিউন্টিট্রেশন আভ বিভাষ্ট্রবলন यक क्रिकेटिक व्याप्तीम याच बन्तार्गरानी यक मिनिविधि है विराध यात, २००२ वर ३६ ना बुवबैंक यूर्नित फ्रन्टाराज सीरवी जननि शक्तव, पूर्वे से यक्तन द्वपार शक्ता बना दिन बच्ची हाकन, निर्मा से घटन कुपार हाकरा, केंद्रावर विकास सम्वक्तानार, लग्न-टानिनेन्द्र, থাৰ-কোনোয়ালি, পশ্চিম মেন্দিৰীপুৰ, পিল-৭১১৯১-ৰাৱ প্ৰতি ০৮,৭৯,২০২০ প্ৰাৰিখ সম্প্ৰদিয় মাৰি বিন্ধান্ত ভাবি কলেছিলেৰ বাব মালন্ত উচ্চ বিন্ধান্ত প্ৰতিব প্ৰতিব ৩০ ৩০ টিলেৰ মধ্যে ভট विकारिक संविधित संवीत १३६,४३,३५६,६५ १६,६५ (स्थान नक विवर्धन समाप्त करतन विवास प्रिकास वर् प्रांगाल गंपान पांडा + coardad a color सुर मह मानाव जान मनहान भारतमपुर मानाव con बार कन पोरान स्थित व्यक्ति कानाव स्टब्स्टिन

উক্ত কৰাটো বাৰিজন্মিত উমিধিৰ অৰ্থাৰ আগম নিতে বৰ্গাৰ আমন কংশ্বাহা নিংশৰত কই কৰাটো ও কৰা জনসাৰ তথ্যৰ জনাকোঁ জাৰকো মাজে যে, নিমাৰক্ষকতাটী দিবি উনিটিই নিংখাই কেন্সোৰ্গতে উ তলাস, ২৯৬২, এর তল না,৮ সহ, পানীস্থ উত মরটোর ১৫ রাজার (৪) না, উপনার মনুস্বারী হবি রাপর वर्णित प्रमानका ५ महत्त्वस, २०२० व्यक्तित निकर्णित मन्त्रवित सका निरम्भात ।

न्दिन्त्र'त वर्षे क्लारीचारक अन्य सम्मवन्त्रात अवस्था विक मन्नविर्दान मित्र राज्यकान रामराभ्य न वचाव सन्त मधर्म कहा दाक अहर विक्र मान्निक्षणि नित्र ता त्यानक सहन्तर उन्नतान १३६,५२,३५७.४७ (१वन नष्म निवानि शक्तार कन्टना विश्वाचन ग्रेग्ड) कना बाम माम प्राप्त न 63,64,603,6 (NE) भूत मह यालव वटन यालाव शतामकूर मदरप माळाव सामाना बाब तर HE PICHWEST !

केक चार्रान ३० मा नातार (b) मा केननातर माञ्चम चनुवर्षे शान टावरान २०४ औ मुतकित परिमानसंति प्राप्तानार नारचा साहना कना मश्चि क्लासीवरूपत्र अञ्चित्रकार रभनभारत्मार प्रवास्थाना महत्र क्रिकेट वर्गा स्टब्स

भ्राम्स सन्नवित निवास: १ व ज विकित (सि+६) द्रारता-माधिक व्यानविद्रारकेंच वर्ण क्वाटवर्धे यह-नूर्व ভোগে স্লয়ট না এইচ-এর সভল অপরিয়াই আশ্, যার মূলর নিণ্ট পরিবাদন ৫৩১ বর্গমুট, জেনা-পতিব মেনিবীপুর, আলা- প্রনিবীপুর, পৌরসভা প্রাপ্তির না ২৯৬২৩৩, আর্চ না ৫৫ (পুরারন), ९ (मधून), जीमा- रक्शनिहान, रक्ष बन नर् ३९६, बन घाट परिश्वन नर २५०/६, मि बम ७ घाट तम परिश्वम मा २०, प्यार तम १४) मा २५०, तम प्यार १४ मा २०५०, तकितमधार - त्रमिनिमा। इतिहास: छेवदर- निमन प्रतिहारक स्रोद, संस्थान- मनारम महिमा, मूर्ल- मिस्, मनारम महिमा, लिय हे आहि, मिराय-अवते हे

विशेष का भाग सकर व য়াদঃ পশিত মেন্দিশুর चनुप्राप्तिः चारिकारिक, शक्षात्र बालवण नाष সংৰ্কণ শয়, পশিল মেদিনীপুৰ

📵 চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

আগ্রহ প্রকাশের জন্য বিজপ্তি (ইওআই)

নং ঃ মেন-জি-জ্যাপদেস আই টাই আপ, ডারিখ ঃ ০৭.১১.২০২৫। মুই বছরের সময়সীমার জন্য নামী হাসপাতাল/কেঞ্চণ্ডলি থেকে সিএলভতু-এর সুবিধাপ্রাপকদোর কাশলেদ আই টাই আপের জন্য আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান। নিয়াধাকরকারী দুই বছর সময়দীমার জন্য কলকাতা থেকে চিন্তরন্ত্রন পর্যন্ত সীমায় হাসপাতাল/কেন্দ্রগুলি থেকে দিএলডকু-এর সুবিধায়াপকলে কাশলেস আই টাই আপের জন্য আগ্রহ প্রকাশ (ইওঅই) আহ্বান করচেন। বিশ্বদ বিবরণ ওচেবসাইট www.clw.indianrailways. gov.in-म लावचा चारत। मिसीतिक नचारम चारतसम कसा साहापत ३३.३२.२०२० আরিবেশ দুপুর ১টার মধ্যে পিদিএমণ্ড-এর অফিদ (রুম নং ১০৫)-এ জমা করা যাবে। এদিএমএদ/দিএলডর/ভিত্তরপ্রদ

बाबाइन्द्र बनुम्हर्ग कडन : www.facebook.com/cfwrailways



खाने में मिला रहे नशीला पदार्थ'

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख बीतन राम मांझी ने शुक्रचार को आरोप तगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परोसे जाने वाले भोजन में उनकी 'कुर्सी के सालबी लोगों' द्वारा 'जहरीला पदार्ब' मिलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह आरोप लगाया।

इससे एक दिन पहले ही मांझी के पूर्व राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार ने उन्हें फटकार लगाई थी। मांझी ने कहा, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अधद्र भीषा का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उन्हें विधानमंडल के दोनों सदनों में माफी मांगनी पदी थी।

कल उन्होंने फिर खुद पर नियंत्रण खो दिया और मुझसे अपमानजनक तरीके से बात की, यह भूल गए कि मैं उम्र और राजनीतिक अनुभव में उनसे चरिष्ट हूं। यह संकेत है। इस दौरान मांझी के साथ भारतीय बनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य मौजूद थे।

हिंद्रतानी अवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने यह भी बताया कि वह बिहार में मौजूदा 'गंभीर राजनीतिक स्थिति' से राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर को अधगत कराने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। मांझी ने इस बारे में बिस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए वहा, मैं नीतीश कुमार को परोसे जाने वाले बोजन की उच्च-स्तरीय जांच कराने की भी

मुझे संदेह है कि उनके भीजन में ऐसे पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जो उन्हें पागल बना देंगे। उनके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अकी कुर्सी का लालच कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व सहयोगी जीतन राम मांझी पर जमकर बरसे और यह भी कहा कि उनकी 'मर्खता' के कारण मांडी राज्य के मुख्यमंत्री चने थे।

'कुर्सी के लालची लोग नीतीश के बिहार विधानमंडल के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

पटना, १० नवंबर (भाषा)।

बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थिमत कर दिया गया। इस सत्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद करने का ऐतिहासिक विश्वेयक पारित किया गया।

बिहार विधानमंडल का यह शीतकालीन सत्र जनसंख्या को नियंत्रित करने में महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर दोनों सदनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विवादास्पद टिप्पणी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर उनके हारा भड़ास निकाले जाने सहित विभिन्न मुद्दी पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार विरोध और स्थगन के कारण चर्चा में रहा।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने बुधवार की महिलाओं पर एक दिन पहले की गई टिप्पणियों के लिए बिहार विधानसभा के

इंस् रात्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50 फीसद से बदाकर 65 फीसद करने का ऐतिहासिक विशेवक पारित किया गया।

सरकार द्वारा आयोजित राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण में पता चला है कि खमान्य श्रेणियों की तुलना में हाशिए पर रहने वाली जातियों की रिश्चति आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी खराब है।

अंदर और बाहर दोनों जगह माफी मांगी। मुख्यमंत्री के माफी मांगने के बाद भी विपक्षी सदस्यों ने उनकी टिप्पणी को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया।

विद्वार विधानमंडल के इस सत्र के वौरान दोनों सदनों में पेश किए गए बिहार पदी एवं सेवाओं की रिक्तयों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 शामिल रहे । इन

विधेयक में शिक्षा और सरकारी नौकरियों मे जाति आधारित कोटा बदाकर 65 फीसद किए जाने का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा आयोजित राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण में पता चला है कि सामान्य श्रेणियों की तुलना में हाशिए पर रहने वाली जातियों की स्थिति आर्थिक और सामानिक रूप से काफी खराब है। ये दोनों विधेयक, जो विधानमंडल के दोनों सदनों में से पारित किए गए, अब राज्यपाल राजेंद्र आलेंकर को उनकी सहमति के लिए भेजे जाएंगे।

विश्व कौशल केंद्र के दूसरे परिसर के लिए ओड़ीशा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए

भुवनेश्वर, १० नवंबर (भाषा)।

ओड़ीशा सरकार ने यहां विश्व कौशल केंद्र (डब्ल्एसर्सी) के इसरे परिसर की स्वापना करने के लिए एक ज्ञापन समझीते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस विश्व कौशल केंद्र की स्थापना और प्रबंधन के लिए सिंगापुर की 'आइटीई एजुकेशन सर्विस' के साथ गुरुवार को समझौते पर हरताक्षर किए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त अनु गर्ग और ओड़ीशा कीशल विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष व विश्व कौशल केंद्र की सीईओ अलका मिश्रा की उपस्थित में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव कषा पादी और आइटीई एजुफेशन सर्विसेज, सिंगापुर के सीईओ ख़ुस पोड ने एमओपू पर हरताक्षर किए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि विश्व कौशल केंद्र का दूसरा परिसर जल्द ही चालु करने का लक्ष्य है। बयान के मुताबिक, वैश्विक मांग को देखते हुए केंद्र नौ समकालीन क्षेत्रों में उन्नत कौशल कार्यक्रम पेश करेगा। बयान के मुताबिक, देश में महाराष्ट्र के बाद आंद्रीशा को तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है।

जगन्नाथ मंदिर में भारी भीड़ के कारण दस श्रद्धालु बेहोश

पुरी, 10 नवंबर (भाषा)।

श्री जगन्नाच मॉदर में शुक्रवार को भारी भीड़ के कारण करीब दस अद्धाल बेहोश हो गए और उन्हें जिला मुख्यालय अस्यताल ले जाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। श्री जगन्नाय मंदिर प्रतासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने कहा कि सुबह भवती की भारी भीड़ के कारण यह घटना हुई।

कार्तिक माह को पवित्र माना जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धाल भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए 12वीं सदी में बने इस मंदिर में आते हैं। उन्होंने कहा, बीमार पड्ने वाले अधिकतर लोग चुनुगं थे। हम मंदिर के अंदर गुचारू वर्शन सुनिक्षित करने के लिए व्यवस्था बद्ध रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, करीब बारह भक्तों के बीमार होने की सुचना हैं और उनमें से दस लोग मंदिर में मंगल आरती के तुरंत बाद बेहोल हो गए। मंदिर में उनकी प्रारंभिक चिकित्सा की गई और उसके बाद उन्हें परी अस्पताल भेजा गया।

मिजोरम के एक केंद्र पर पुनर्मतदान, 87 फीसद मतदाताओं ने डाले वोट

ऐजल, 10 नवंबर (भाषा)।

ऐजल दक्षिण-तृतीय निर्वाचन क्षेत्र के मुआलुंगबु मतदान केंद्र पर शुक्रवार को हुए पुनर्मतदान में कुल 1,084 में से 87 फीसद मतवाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे समाप्त हुआ।

इसके अलावा इस संबंध में अधिकारियों ने यह भी कहा कि पुनर्मतदान इसलिए कराया गया, क्योंकि मतदान कर्मी मंगलवार को हुई वोटिंग से पहले मतदान अभ्यास में सफल नहीं हो पाए थे। सत्तारूढ मिजो नेशनल फ्रांट (एमएनएफ) ने मौजूदा विधायक तालनुनमाविया को मैदान में उतारा , जबकि जोरम पीपुल्स मूबमेंट (जेडपीएम) ने बैरिल वन्नेइहसांगी को टिकट दिया।

कांग्रेस ने रोसियामनघेटा पर दांब



मिजोरम की 40 सबस्यीय विधानसभा के लिए मंगलवार को मतदान हुआ वा, जिसमें 80.43 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

वहीं मतगणना तीन दिसंबर को होगी। मिनोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था, जिसमें 80.43 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

भूवनेश्वर, 10 नवंबर (भाषा)।

विपक्षी कांग्रेस ने ओडीशा के राज्यपाल रमुबर दास पर बिना किसी उचित चनह के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निवास पर बाने और उनसे भेंट करने को लेकर प्रोटोकाल (निपर्मा) का उल्लंपन करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री और वरिष्ट कांग्रेस नेता पंचानन कान्तिगो ने आरोप लगाया कि नवनियुक्त राज्यपाल दास ने एक दिन पहले ही मुख्यत्रमंत्री से उनके सरकारी आदास नवीन निवास पर भेंट की थी।

प्रदेश कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष कानूनगो ने यहां संवाददाताओं से कहा, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से दनके निवास पर भेंटकर प्रोटोकाल का उल्लंपन किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के बाद राज्यपाल ओड़ीशा लौटे और वह मुख्यमंत्री के आवास पर गए। एक राज्यपाल को तब तक मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाना चाहिए

एदेश कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष काननमों ने वहां संवाददाताओं से कहा, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से उनके निवास पर भेटकर प्रोटोकाल का उल्लंबन किया है।

पटनायक ने 'एक्स' पर लिखा, राज्वपाल श्री रघूवर दास से भेंटकर खुशी हुई। हमने औड़ीशा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

जब तक मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मुद्दे जैसी आपातस्थिति न हो। राजभवन से जवाब देने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि राज्यपाल को नवीन निवास जाने की क्या जरूरत थी। कानूनमों ने कहा, क्या आप प्रधानमंत्री का अत्यावश्यक संदेश देने मुख्यमंत्री निवास गए थे, या फिर मुख्यमंत्री बहुत बीमार है या आप दिवाली का उपहार देने गए थे। राजभवन या उनके सचिवालय को यह स्पष्ट करने की जरूरत

राज्यपाल ने किया मुख्यमंत्री निवास पर पटनायक

से भेंट करने पर प्रोटोकाल का उल्लंघन : कांग्रेस

दास के आधिकारिक 'एवस' हैंडल गवर्नर ओडीशा की तरफ से पोस्ट किया

गया, माननीय राज्यपाल श्री रघुवर दास ने नवीन निवास पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से शिष्टाचार भेंट को।

उन्होंने विस्तार से ओड़ीशा के विकास पर चर्चा की तथा राज्य की सेवा के लिए मुख्यमंत्री के लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं सक्रिय जीवन की कामना की। पटनायक ने भी 'एक्स' पर लिखा, ओड़ीशा के राज्यपाल श्री रपुवर दास से भेंटकर खुशी हुई। हमने ओडिशा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और मैं राज्य और यहां को जनता के कल्याण के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए



(रूपए में जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो)

				स्टेडअलो	a	समेकित						
II.	विवरण	अ.क.शहर जो अस्तर जिसही	अ.स.सरा बो सम्बद्ध हॉ डमही	30 IM 2022 BIT PERFOR ESHIPET	को सम्बद्धा स्त्र स्त्रकारी	31,03,2923 all surror and	SHOW SHESS of states (State)	आ शंक 2023 की सम्बद्धाः रही छमारी	30,04,2022 80,00012 554020	36,09,3522 को समान्त् हुई डिम्मही	31,61,2623 80 august 84	
-		4s Awretti k			to harutiles		4s Approfiles			4: Acoustics		
1	अवन्तर में कुल आध	35,162.04	68,377,37	38,300.74	80,641.46	1,55,517,32	1.46,873.73	3.10,897,32	1,68,656.12	3,51,549,87	4.84.879.23	
2	अवधि के लिए जार मान् / (तानि) (मार पूर्व, अवधीतम गरी)	13.471.96	26.832.53	15,300.49	36,712.46	55.030.44	22.090 65	45,810,46	9235.76	22,13001	51.386.75	
3	कट पूर्व आहें। के लिए शुद्ध लाभ / (प्राप्ति) (अतायदाल मदी के पद्धार)	13,471,98	26.812.53	16,335.49	36,712.46	58,205.33	22,186.90	45.506.71	\$224.42	21,445.01	43.090.79	
8	सद पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हार्ति) (असम्बद्धाः अर्थे के पश्चात)	10,216.32	20,231.38	12,625,99	28,001,64	MANAGE	16,553.32	33.536.29	6,020.16	15,410,91	32,777.61	
\$	असी के लिए कुल बातका आप (आपि के लिए लाभ/(समि)(केंद्र पश्चान) और अध्य बातक आप (कंद्र पश्चान) शामिल हैं]	10,862.97	23,116.36	11,313.09	24,996/21	38,310.22	16,740.28	36,517.10	5.180.74	19,329.20	25,648.8	
6	इस्किटी शंबर पूजी (प्रत्येक का अंकित मृत्य 5/- रूपा)	6,290.14	6,290,14	6.290.14	6.290:14	6.290.14	6,290.14	6,290.14	6.290:14	6,290.14	6.290.14	
7	Shin apq	2.80,333.16	2.80.333.16	2,58,058.67	2.58.005.67	2,57,345.84	3,36,401.05	3.36,401.05	2,97,214.13	2,97,214.13	3.01.255.0	
	पुस्रात प्रमा पृथी/प्रसाद प्रमा	8.701.64	6,703.44	8,821.85	9.821.85	7,218.88	1.15.454.23	1.15,454,23	1,36,679.13	1,36,670.13	1,29,185.5	
1	अवर्षित	2.74,043.02	2,74,043.02	2.51,765.53	2.51.765.53	2,51,555.70	3,03,337.26	3.03.357.26	2,72,620,71	2,72,629,71	2,74,357,1	
10.	पूर्ण जीवर अर्राहेत	125.48	136.48	126.48	126.46	126.48	191.75	191.75	101.75	181.75	191.7	
11	दिसंबर मोदान अद्यक्तित	माद्रसर्व	लाइ वर्ड	manf	लाइनहीं	सक्तु स्तूती	1,598.71	1,584.71	2,825.63	2,825.63	2,814.9	
12	प्रति शेष्ट्र आप (प्रतिक का अविश्त कुन्य ५/-) - वाचित्रीकृत जार्री विश्वा गाव (क) मुत्रे (उपर) (व) त्रमुकत (शाव)	8.12 8.12	16.08	10.20	27.28 27.28	30.86 30.86	18.92	22.15 22.15		16.09 16.09	28.1 28.1	
13	भाग इस्मिटी अनुवार	0.00	0.00	8.04	0.04	0.03	8.34	0.04	0.66	2.40	0.4	
W.	प्रथ तेश कारोज अनुवार	174.00	177.25	225.54	267.31	194.88	2.08	2.31	8.00	9.51	3.9	
15	NEW WITH WITH NEW	17403	177.23	225.54	257.31	194.88	17.76	17,90	10.40	14.32	12.8	
16.	шбая муах	1.70	1.70	1.84	1.64	1.29	1.00	1.00	0.95	0.95	0.8	
12	बार्वतील पूर्व के लिए कैर्ववालिक अन्य	0.20	0.20	6.32	0.22	0.45	5.10	3.10	19.54	19.54	***	
ii.	रोशा प्राप्त अनुवार में अशीधा ऋष			10.4				8.01		1.9		
10	वार्तवान देवता अनुवात	0.34	0.54	0.33	9.33	0.38	2.44	0.44	0.43	2.43	0.4	
ij:	कुल परिश्वपति के प्रति कुल कुण	9.02	0.02	0.03	0.03	0.02	6.17	0.17	9.22	8.22	0.2	
Ħ	Executive cylolists	3.00	0.14	3.36	7.30	14.11	5.49	74.03	7.77	17.00	31.8	
12	मानसूची दर्शशोवर	3.36	7.48	4.67	9:53	19.22	3.00	6.31	3.23	6.79	13.9	
75	states with (x)	41.25	41,63	44.43	47.13	40.08	36.81	16.25	4.80	7.33	0.6	
24.	विधान गांध वार्तित (५)	29.05	29.33	33.47	34.76	24.97	11.27	10.92	4.05	4.38	4.7	

St. | passance wage (P) *** विभागक ऋगात्मक होने के कारण प्रकट नहीं किया गया है।

रिपाणियाँ उपरोक्त परिणान कंपनी अधिनेयन, २०२३ की थरा १३३ के तहत विहेत भारतीय नेखानन मानकों (इंद-एरस) के अनुसार है, मी इसके तहत नार्ट किए गए प्राथमिक नियमों और भारत में आम तीर पर

खीकत अन्य लेखांकन मिद्रांतों के साथ परे जाते हैं। 2) उपरीक्त सेवी (सुवीकरण और अन्य प्रकारीकरण आवश्यकारी) विभिन्नम, 2015 के विभिन्नम 33 और 52 के सहुत सर्वीक एक्सपेनी के साथ यापर 30.09,2023 को समाप्त दिमारी और एमार्टी के लिए

में - नेवानबीरिन विरोध परिणानों के जिन्दुर प्रथम का एक उद्धारण है। ३० ००.२०२२ को समान जिन्हीं और समाही के लिए मेर-नेवानबीरिन विरोध परिणानों का पूर्ण प्रयास करींक एकसपेनी की वेद्याहर बीएर्स (www.bosindis.com), एमएर्स (www.nesindis.com) और कंपनी की डेडसएट www.ongcindis.com पर उपनाद है।

बोर्ड के आदेवानुसाद Longe

भाषल एण्ड नेघुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी पुत्र की कंपनियाँ

(पोजिला ज्ञापाल) जिदेशक (विस)

sport and सीआईएन में.: £748890£99300£65465 पंजीबुल कार्यालय : प्लीर में. 5१-5वी. मेरावन बंडेला लेड, वार्य क्रेंज, रई शिली – 138fb qrere : 811-26754082, from : 811-26129091, f-499 : secretaristicionge.co.in

www.ongcindia.com f /ONGCLimited 💥 @ONGC_ in company/ONGC 👩 ongcccdelhicc 👩 Instagram/ongcofficial



CELEBRATING 150+ STORES ACROSS INDIA

INDIA'S 2" MOST **80 YEARS OF** LEGACY TRUSTED JEWELLERY

आशान्वित हुं।

CERTIFIED OMNICHANNEL SHOPPING DIAMONDS

HUID HALLMARKED

JEWELLERY

SENCO GOLD LIMITED

REGISTERED OFFICE: "DIAMOND PRESTIGE", 10TH FLOOR, 41A, AJC BOSE ROAD, UNIT NO 1001, KOLKATA-700017 CIN: L36911WB1994PLC064637

E-mail: in@sencogold.co.in | Website: www.sencogoldanddiamonds.com | (T): +91 33 4021 5000

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 3014 SEP 2023

Total income from 9,301.42 34,692.22 19,325.51 41,072.65 11,575.92 13,148.46 Net Profit for the period 139.74 382.61 122.76 437.51 2,185.86 129.07 119.34 513.63 430.19 2,161.52 (Sefera tax) Net profit for the period 120.15 221.41 1.679.17 314.09 1,584.79 254.71 404.38 119.48 396.16 (after tax) **Total Comprehensive** income for the period [Comprising Profit / ILossi for the period (after tax) and Other Comprehensiv 107.61 283.35 390.56 317.75 1,604.63 106.54 275.30 BT.DO 382.24 318.50 1,580.34 90.43 income (after tas)) Equity Share Capital 651.46 \$21.46" | \$31.46" 601.46 Reserves as shown in the **Audited Enlance Sheet** share (EPS) (in 1) (* not annualised) 1. Basic 2.02* 1.12" 6.81 4.65 23.25 2.01 4.66* 2. Diluted 2.01* 1.32* 6.79* 23.23 2.00* 139 4.53* 33.80 4.64" 3.39* 5.63*

The above is an extract of the distailed format of the standatore and constituted unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 23 of the SEB Subing Obligate Discissore Requirements/Regulations, 2023. The full format of the Protectal results are available on the National Stock Exchange of India Control within 25RC, some maintain conversation, and on the Company's sentate.

The standard process and compared the Compared section of the Compared section

The standalone and consolidated unacidated financial results for the quarter and six receibs period ended 30 September 2021 has been appropriately the Company's Sound of Directors but has not been

The chief operating decision maker ECDMC has abrothed 'posetion' business' as a single business operating segment per management approach enumerated to his landard per the absorbed per the absorbed standard.

Accordingly, no other disclosures are required to be furnished per the absorbed standard.

Accordingly where capital expended in the discribitations and consolitation and consolitat

During the quarter, the Company has influent share capital presenting to £ 25.00 million in Sanco Guid Artsandrop Private (Initial, a wholly owned substitutes in fact.
The Board of Directors of the Holding Company at their meeting held on 58 tice-ember 2023 have recommended an interior disclosed (22%, (£) per equity share of box value of £ 32 warry.

By Order of the Board of Directors Senco Gold Limited

Suvankar Sen,

Managing Director & CEO DIN: 01178803






Place: Nolkata





Figures for the previous period have been regrouped; reclassified whenever not excury to confirm to content period's classification.









(RFG) to arrive, 2023